QUICKLY.

Forex reserves drop to \$688.26 billion



Mumbai: India's forex reserves dropped by \$2.163 billion to \$688.267 billion for the week ended October 18, the Reserve Bank said on Friday. In the previous reporting week, the overall kitty had dropped by \$10.746 billion to \$690.43 billion in one of the largest declines in the reserves in recent times, the RBI said. #n

J&K Bank Q2 profit rises 45% to ₹551 crore

nagar: Jammu and Kashmir nk on Friday reported 45 per nt rise in September quarter ndalone profit at ₹551 standalone profit at ₹551 crore.In the year-ago period, the bank had logged a profit of ₹381.07 crore.Net profit in April-September FY25 grew 366 per cent to ₹966.41 crore from ₹707.52 crore in the same period a year ago, a statement said. The bank's CASA stood at 486.0 per cent, which continues to be one of the highest ≥n.

Banks increased their overseas presence during 2023-24: RBI

EXPANSION DRIVE. Number of branches, staff of foreign banks in India also saw a rise

Our Bureau

Indian banks increased their overseas presence during 2023-24 both in terms of bal-2023-24 both in terms of bal-nace sheet size as well as in terms of number of branches and employees, according to the Reserve Bank of India's 2023-24 round of its survey on international trade in banking services. Banks' employee strength increased by 8.2 per cent in overseas branches and 1.7 per cent in subsidiaries. Dur-ing the year, the number of branches and employees of

ing the year, the number of branches and employees of foreign banks in India also expanded by 0.6 per cent and 1.4 per cent, respectively. Consolidated balance sheets of overseas branches and subsidiaries of Indian banks grew by 4.3 per cent and 0.4 per cent, respectively, during the year whereas that of foreign banks in India recorded higher increase of 7.2 per cent, in US dollar terms.

In US dollar terms, over-seas branches of Indian banks recorded a 8.8 per cent growth in deposits while



GROWTH MODE. Banks' staff strength increased by 8.2 per cent in overseas branches and 1.7 per cent in subsidiaries secures

their lending declined mar-ginally by 0.8 per cent during the year; these changes, inter alia, also reflected cross-cur-rency movements.

SUBSTANTIAL INCREASE SUBSTANTIAL INCREASE
Continued tightening of the
global monetary policy cycle
resulted in a substantial corease in interest income
and expenses across all the
three cohorts during the
year; interest income and interest expenses of oversease
branches of Indian banks

grew by 72 per cent and 87.5 per cent, respectively, whereas the corresponding growth for foreign banks in India were 27.1 per cent and 47.7 per cent, respectively. Total income to assets ratio of overseas branches of Indian banks increased to 6.2 per cent in 2023-24 (3.9 per cent in 2022-23) but it remained lower than that of Indian banks' subsidiaries (7.3 per cent) and foreign banks' operating in India (7.6 per cent).

A big rise in interest rates resulted in acceleration in total income during 2023-24; fee income of overseas branches of Indian banks and the foreign banks operating in India also increased during the year but it declined for the relatively minor segment of overseas subsidiaries of Indian banks.

SHARE OF FEE

A major share of fee income for overseas branches of Indian banks was generated by rendering (a) credit-related services; (b) derivative, stock, securities and foreign exchange trading services: exchange trading services; and (c) trade finance-related

and (c) trade finance-related services.

In the case of the foreign bank branches operating in India, a significant portion of fee income accrued from (a) derivative, stock, securities, foreign exchange trading services; (b) payment and money transmission services; and (c) trade finance-related services. Branches of Indian banks in the UK generated highest fee income, followed by those in the UAE, Singapore and Hong Kong.

Bank of Baroda Q2 net rises 23% to ₹5,238 cr on income growth

Our Bureau

Bank of Baroda reported a 23 per cent year-on-year in-crease in the second quarter (Q2FY25) standalone net profit at ₹5,238 crore on the back of moderate growth in net interest income and robust growth in non-interest income even as it increased provisioning for standard assets.

sets.

The public sector bank revised downwards credit and deposit growth projections for FY25. BoB had reported a net profit of ₹4,253 crore in for FY25. BoB had reported a net profit of 74,253 crore in the year ago quarter (Q2FY24). Debadatta Chand, MD & CEO, BoB, said: "We had earlier projected a credit growth of 12-14 per cent for FY25. But because of lower liability growth, we have reduced credit growth guidance to 11-13 per cent. "Similarly, we have reduced deposit growth guidance from 10-12 per cent to 9-11 per cent. At the same time, we are keeping the margin guidance intact at 3.15 per cent (4/-5 basis points). We want to calibrate credit growth with deposit growth. We expect moderation in deposit cost O2 scorecard 4,253 23.2 5,236 11,622 5,181 9,477 10,831 4,171 8,020 Non-interest income Operating profit Total Provisions 2,161 8.1 GNPAs % NNPAs % Global deposits

in Q3 and Q4."

Net interest income/NII (difference between interest earned and interest expen-ded) was up about 7 per cent y-o-y at \$11,622 crore (y-o-y at ₹11,622 o ₹10,831 in Q2FY24).

NON-INTEREST INCOME
Total non-interest income Total non-interest income, comprising fee income (loan processing charges, miscellaneous fee income, etc.), forex income, profit or loss on sale/revaluation of investon sale/revaluation of invest-ments, and recovery from technically written-off ac-counts, etc, rose about 24 per cent to ₹5,181 crore (₹4,171 crore). Provisions for stand-ard assets rose to ₹336 crore against write-back of ₹360 crore in the year ago quarte. Provisions for bad loans &

bad debts written-off de-clined 24 per cent to ₹1,733 crore (₹2,285 crore). Provi-sion for non-performing in-vestment rose 33 per cent to sion for non-performing in-vestment rose 33 per cent to ₹122 crore (₹92 crore).Asset quality improved, with gross non-performing assets (NPAs) declining to 2.5 per cent of gross advances as at September-end 2024 against 3.32 per cent as at Septem-ber-end 2023. NNPAs nudged lower to 0.6 per cent of net advances from 0.76 per cent. Net interest margin edged up to 3.10 per cent in the reporting quarter against 3.07 per cent in the year ago quarter. As on March-end 2024, global advances in-creased by 11.6 per cent y-o-y to ₹11,43,039 crore. Global deposits were up 9.1 Global deposits were up 9.1 per cent to ₹13,63,486 crore. o-y to ₹11,43,059 C. Global deposits were up 9.

IDBI Bank's Q2 profit rises 39% to ₹1,836 crore

	Q2FY25 (₹ cr)	Q2FY24 (₹ cr)	Change %				
Net Profit	1,836	1,323	39.00				
Net interest income	3,875	3,067	26.00				
Other income	1,313	889	48.00				
Operating profit	3,006	2,072	45.00				
Provisions	1,170	748	56.42				
Deposits	2,77,602	2,49,434	11.30				
Net advances	2,00,944	1,68,502	19.25				
BI Bank reported a	a robust ease in		cent y-o-y t 889 crore). ank received				
ond quarter (Q ndalone net pr		write-back of ₹165 crore from provisioning for non- performing assets (NPAs) against a write-back of ₹113					
836 crore on the							
althy growth in	net in-						
est income as	well as	crore in Q2FY					
ner income despit	e a rise	sioning for standard assets jumped to ₹1,147 crore					
provisions for s							
provisions for s ets.		against a write	-back of ₹26				
ets.		against a write crore in Q2FY	-back of ₹26 24. Provision				
ets. TEREST INCOM	Е	against a write crore in Q2FY towards bad o	-back of ₹26 24. Provision lebts writter				
ets. TEREST INCOM e private sector	E lender	against a write crore in Q2FY towards bad of off rose to ₹3	-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore (₹8				
ets. TEREST INCOM	E lender profit of year ago	against a write crore in Q2FY towards bad c off rose to ₹30 crore). Net in (NIM) improv	e-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore (₹8 terest margi ed to 4.87 pe				
ets. TEREST INCOM e private sector f reported a net p 323 crore in the y arter.	E lender profit of year ago	against a write crore in Q2FY. towards bad c off rose to ₹30 crore). Net in (NIM) improv cent against 4.	e-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore (₹8 terest margi ed to 4.87 pc 33 per cent i				
ets. TEREST INCOM e private sector d reported a net p 323 crore in the y arter. Net interest incor	e lender profit of year ago	against a write crore in Q2FY. towards bad c off rose to ₹30 crore). Net in (NIM) improv cent against 4. the year ago	e-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore (₹8 terest margi ed to 4.87 pc 33 per cent i period. Gros				
ets. TEREST INCOM e private sector d reported a net p 323 crore in the y arter. Net interest incor ence between	lender profit of year ago me (dif- interest	against a write crore in Q2FY towards bad c off rose to ₹3 crore). Net in (NIM) improv cent against 4. the year ago Non-Performin	e-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore (₹8 terest margi ed to 4.87 pc 33 per cent i period. Gros ng Asset				
rets. TEREST INCOM e private sector d reported a net p 323 crore in the y arter. Net interest incol ence between med and interest	lender profit of year ago me (dif- interest expen-	against a write crore in Q2FY towards bad & off rose to ₹3 crore). Net in (NIM) improv cent against 4. the year ago Non-Performi (NPAs) positio	e-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore (₹8 terest margi ed to 4.87 pe 33 per cent i period. Gros ng Asset n improved t				
rets. TEREST INCOM e private sector d reported a net p 323 crore in the y arter. Net interest incorence between med and interest d) in the reporting	lender profit of year ago me (dif- interest expen- quarter	against a write crore in Q2FY towards bad & off rose to ₹3 crore). Net in (NIM) improv cent against 4. the year ago Non-Performi (NPAs) positio 3.68 per cent	t-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore ₹8 terest margi ed to 4.87 pe 33 per cent i 13 period. Gros ng Asset n improved t of gross ac				
rets. TEREST INCOM e private sector d reported a net p 323 crore in the y arter. Net interest incol ence between med and interest	lender profit of year ago me (dif-interest expen-quarter cent y-(₹3,066	against a write crore in Q2FY towards bad & off rose to ₹3 crore). Net in (NIM) improv cent against 4. the year ago Non-Performi (NPAs) positio	e-back of ₹26 24. Provision lebts writter 07 crore (₹8 terest margi ed to 4.87 pe 33 per cent i period. Gros ng Asset n improved t of gross ac eptember-en d to 4.90 pe				

IDBI Bank reported a robust JUSI Bank reported a robust 39 per cent increase in second quarter (Q2FY25) standalone net profit at 71,836 crore on the back of healthy growth in net increst income as well as other income despite a rise in provisions for standard assets.

INTEREST INCOME
The private sector lender had reported a net profit of ₹1,323 crore in the year ago

quarter. Net interest income (dif-Net interest income (dif-ference between interest earned and interest expen-ded) in the reporting quarter was up about 26 per cent y-o-y at ₹3,875 crore (₹3,066 crore in the year ago period). Other income, including

a dividend of ₹ 22 per share today.

Shriram Finance's net interest income (NII) grew 16 per cent y-o+to ₹ 5,607 croe in Q2FY25, while net interest margin (NIM) moderated by 5 basis points (bps) sequentially to 8.74 per cent. Its total assets under management grew 20 per cent to ₹ 2.43 lakh crore.

SOLIDANCE FOR HZPY25
Speaking to businessline, Shriram Finance's Executive
Vice-Chairman Umesh Revankar acknowledged that
there is a slowdown in vehicle
sales in pre-festival season as
compared to last fiscal, but affirmed that overall AUM will
continue to grow in similar 30 continue to grow in similar 20 per cent range in H2FY25. "This festival season, sales are not as buoyant as last year.

Shriram Finance PAT up 18%, announces 1:5 stock split

Non-banking finance company (NBFC) Shriram Finance on Friday reported 18 per cent year-on-year (y-o-y) rise in its net profit for the quarter ended September at ₹ 2,071 crore, led by strong core income growth.

The vehicle finance focused NBFC also announced 1.tro.5 stock splif along with

a 1-to-5 stock split, along with a dividend of ₹ 22 per share

GUIDANCE FOR H2FY25



Umesh Revankar, Executive

A slow pickup is there. But this doesn't mean there will be flat growth, there will be be flat growth, there will be growth, maybe a little lower than anticipated. Overall en-vironment is positive and I expect higher growth in rural areas due to higher income led by better MSP (minimum support price) and higher output."

output."

Urban consumption may be slow on account of higher inflation, he said. The NBPC, he said, is being cauttois in growing in certain Eastern parts of country, where economic activity is slower and there is lower vehicle demand.

mand.
Overall, the NBFC is targetting close to 5 per cent gross non-performing asset (GNPA) ratio and 2.4 per cent net NPA (NNPA) ratio by FY25 end, as against 5.32 per cent GNPA and 2.64 per cent NNPA in Q2FY25.

Bandhan Bank profit jumps 30% to ₹937 cr

Private sector lender Bandhan Bank on Friday reported around 30 per cent year-onyear jump in its net profit to ₹937.44 crore for the second quarter this fiscal as its operating profit witnessed over 17 per cent y-o-y rise during the period.

The Kolkata-based lender had posted a net profit of ₹721.16 crore for the first quarter last fiscal. On a quarter-on-quarter basis, net profit witnessed an 11.85 per cent decline in the period under review.

cent decline in the period and der review.

The bank's operating profit during the second quarter of FY25 grew 17.16 per cent y-o-y at ₹1855.09 crore as against ₹1883.39



crore for the corresponding period of FY24, according to stock exchange filing.

During the quarter, Net interest income (NII) rose 20.66 per cent y-o-y to ₹2948.26 crore from ₹2443.36 crore for the yearago period.

Net interest margin increased to 7.4 per cent from

 Net interest margin
 7.4
 7.2

 Gross NPA ratio
 4.68
 7.32

7.2 per cent in Q2FY24.

During Q2FY25, gross advances grew 21 per cent y-o-y, while deposits grew 27 per cent y-o-y.

GOOD SHOW

"On a year-on-year basis the EEB portfolio (erstwhile mirofinance segment) grew 10.6 per cent, but quarter-on-quarter we have decided to hold onto the portfolio, given the overheating and over leveraging in the mi-

crofinance industry and decided not to grow rapidly at this stage and contain portfolio quality," Bandhan Bank MD and CEO Ratan Kumar Kesh told reporters.

"We should see a better turnaround going forward, if the market condition improves for the overall microfinance industry by the fourth quarter," Kesh added. The lender's collection efficiency for EEB loans was marginally lower at 98.1 per cent for the second quarter this fiscal.

Gross non-performing as-

this fiscal.

Gross non-performing assets (GNPA) ratio improved to 4.7 per cent in Q2FY25. from 7.3 per cent in Q2FY24. Net NPA ratio improved to 1.3 per cent in the second quarter this fiscal compared to 2.3 per cent in the yearago period.

Chola

: Chennai : October 25, 2024

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND **FINANCE COMPANY LIMITED**



Registered Office: Chola Crest, C54. C55.Super B 4 Thiru V Ika Industrial Estate, Guindy, Chennai -600032 Phone number: 044-40907172; Fax number: 044-4090648 Email: investors@chola.murugappa.com; Website: www.cholamandalam.com

EXTRACT OF THE DETAILED FORMAT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Particulars 30.09.2024 Un-audited 30.09.2024 30.06.2024 Un-audited 30.09.2023 30.09.2023 31.03.2024 5,828.97 1,268.49 942.23 Total income from operations Net Profit for the period before Tax Net Profit for the period after Tax Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax) 941.12 778.88 870.90 168.15 168.12 164.57 168.15 164.57 168.06 16,226.26 15,393.77 12,649.37 16,226.26 12,649.37 14,438.47 4,916.98 33.00 19,556.51 1,34,473.58 Nil lot applicable 2,926.48 4,937.11 2,926.48 7.57 6.88 mings per Share (EPS) (₹ of 2/- per share) annualised for interim period)

		Consolidated									
SI.	Particulars	0	Quarter ended		Six mont	Year ended					
No		30.09.2024 Un-audited	30.06.2024 Un-audited	30.09.2023 Un-audited	30.09.2024 Un-audited	30.09.2023 Un-audited	31.03.2024 Audited				
1.	Total income from operations	6,322.34	5,856.75	4,695.16	12,179.09	8,865.95	19,419.87				
2.	Net Profit for the period before Tax	1,304.88	1,275.06	1,061.70	2,579.94	2,014.07	4,614.63				
3.	Net Profit for the period after Tax	967.80	947.15	772.87	1,914.95	1,482.81	3,420.06				
4.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after tax and Other Comprehensive Income after tax)	875.63	946.04	773.05	1,821.67	1,475.62	3,349.32				
5.	Equity Share Capital	168.15	168.12	164.57	168.15	164.57	168.06				
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserves, securities premium account and capital redemption reserve)	16,272.64	15,435.43	12,683.20	16,272.64	12,683.20	14,475.20				
7.	Securities premium account	4,937.11	4,929.67	2,926.48	4,937.11	2,926.48	4,916.98				
8.	Capital Redemption reserve	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00				
9.	Networth	21,410.90	20,566.22	15,807.25	21,410.90	15,807.25	19,593.24				
10.	Outstanding Debt	1,57,942.60	1,50,050.75	1,19,470.90	1,57,942.60	1,19,470.90	1,34,474.88				
11.	Outstanding Redeemable preference shares	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	N				
12	Debenture Redemption reserve	Not applicable	Not applicable								
13.	Debt Equity Ratio	7.38	7.30	7.56	7.38	7.56	6.86				
14.	Earnings per Share (EPS) - (₹ of 2/- per share (not annualised for interim period	2333	1/8/50	1000000							
	a) Basic	11.52	11.27	9.40	22.79	18.03	41.1				
	b) Diluted	11,49	11.25	9.37	22.73	17.98	41.00				

...

Interest Service Coverage Ratio and Debt Service Coverage ratio not applicable as the Holding Company is a RBFC.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results flied with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing sand Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and sis sended September 30, 2024 is available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the Company's

On behalf of the Board of Director

Orient Electric Q2 net profit falls 43.4%

Press Trust of India

Orient Electric Ltd on Friday reported a 43.41 per cent decline in its net profit to ₹10.44 crore for the second quarter ended September 2024.

It had posted a net profit of ₹18.45 crore in the July-

of ₹18.45 crore in the July-September quarter a year ago, according to a regulat-ory filing from the CK Birla group firm.

However, its revenue from operations increased 16.44 per cent to ₹ 660.15 crore during the period under re-view. It was ₹566.9 crore in the corresponding period of the last fiscal.

The revenue growth was

the last fiscal.

The revenue growth was driven by "...encouraging performance in the lighting, appliances and Fans segments on the back of digital thrust, festival lifting and higher realisations".

Its total expenses were ₹650.11 crore, up 14.94 per cent, in the September

cent, in the September quarter.
Orient Electric's total income, which includes other income, stood at ₹664.34 crore, up 16.5 per cent.
Shares of Orient Electric Ltd on Friday settled at ₹210.30 apiece on BSE, down 1.61 per cent from the previous close.



SL	Particulars		Quarter ende	d	Six month p	Year ended	
No.		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
LAO.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	2,598.09	2,522.29	2,162.38	5,120.38	4,288.53	9,206.96
2	Net loss for the period from continuing operations (before Tax and Exceptional items)	(494.75)	(299.73)	(104.13)	(794.48)	(67.81)	(751.34)
3	Net loss for the period before Tax from continuing operations (after Exceptional items)	(386.02)	(299.73)	(135.49)	(685.75)	(23.05)	(636.26)
4	Net loss for the period after Tax from continuing operations (after Exceptional items)	(428.77)	(337.57)	(190.35)	(766.34)	(174.90)	(828.89)
5	Net profit for the period after Tax from discontinued operations	-	-	-	-	1.39	1.39
6	Net loss for the period after Tax from continuing and discontinued operations (4+5)	(428.77)	(337.57)	(190.35)	(766.34)	(173.51)	(827.50)
7	Total comprehensive income for the period	(256,49)	(358.23)	(274.37)	(614.72)	(396.87)	(996.63)
8	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 1 each)	1,055.90	603.59	603.59	1,055.90	603.59	603.59
9	Reserves (Other equity)						(1,473.25)
10	Securities premium account	55.62	1.2	-	55.62	-	-
11	Outstanding debt	35,281.76	34,861.52	31,256.30	35,281.76	31,256.30	35,284.67
12	Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic & Diluted (in ₹)	(0.29)	(0.23)	(0.15)	(0.54)	(0.20)	(0.93)
13	Ratios					200-00	
	Networth (₹ in crore)	(725.46)	(1,221.44)	554.08	(725.46)		(869.66)
	Debt Equity Ratio (no. of times)	(49.46)	(29.04)	56.81	(49,46)	56.81	(41.29)
	Debt Service Coverage Ratio (no. of times)	0.27	0.62	0.59	0.38	0.41	0.32
	Interest Course Courses Batin (no. of times)	0.04	114	123	1.02	126	133

SL	Particulars		Quarter ende	d	Six month p	Year ended	
No.		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
IVU.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	283.35	202.59	179,44	485.94	330.51	837.04
2	Net loss for the period (before Tax and Exceptional items)	(170.39)	(143.19)	(89.94)	(313.58)	(192.87)	(532.51)
.3	Net loss for the period before Tax (after Exceptional items)	(63.56)	(143.19)	(89.94)	(206.75)	(192.87)	(537.31)
4	Net loss for the period after Tax (after Exceptional Items)	(63.48)	(145.66)	(90.62)	(209.14)	(195.34)	(541.87)
5	Total comprehensive income for the period	(6,500.28)	(145.75)	(90.62)	(6,646.03)	(195.44)	19,301.05
6	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 1 each)	1,055.90	603.59	603.59	1,055,90	603.59	603.59
7	Reserves (Other equity)*						53,034.78
8	Securities premium account	1,306.98	1,251.36	1,251.36	1,306.98	1,251,36	1,251.36
9	Outstanding debt	7,600.15	7,689.83	6,046.49	7,600.15	6,046.49	7,687.88
10	Earnings per share (of ₹ 1/- each) Basic & Diluted (in ₹)	(0.06)	(0.15)	(0.10)	(0.21)	(0.21)	(0.57)

ied format of quarterly results filed with the stock exchanges under Regulations 33 and 52 of Listing

दक्षिणी दिल्ली, (पंजाब केसरी): साउथ वेस्ट

डिस्ट्रिक्ट के साउथ कैंपस के चोरों ने एक घर में

कर रही है। पीड़ित, नानकपुरा, मोती बाग में रहते हैं। वह केंद्रीय सचिवालय में कार्यरत हैं। वह 22

WEBSITE OF THE BOARD

NODAL OFFICER/CONTACT

DETAILS/EMAIL

प्रादेशिक, आसपास एवं अन्य गतिविधियां

▶ २६ अक्तूबर, २०२४ > शनिवार

आरोपी महिला को लखीमपुर खीरी में अंतरराष्ट्रीय भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया

बर्गर किंग हत्याकांड : वारदात में शामिल मुख्य आरोपी अन्नू धनखड़ गिरफ्तार

आरोपी महिला का गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से है संबंध

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी)ः दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने राजौरी गार्डन में स्थित बर्गर किंग हत्याकांड में गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग की महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान अन्नू धनखड़ के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी महिला को लखीमपुर खीरी में अंतरराष्ट्रीय भारत-नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। गत 18 जून को राजौरी गार्डन में प्रतिद्वंद्वी गिरोह के एक समर्थक की सनसनीखेज हत्या में शामिल थी। वह हत्या के बाद से फरार थी और 23 सितंबर को उसे भगोडा घोषित किया

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना संख्याः NER-BSB0SnT-OT-29-2024

पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यों के

लिए 'खुली-ई निविदा' आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक-(1) निविदा सूचना सं एवं कार्य का नामः

NER-BSB0SnT-OT-29-2024, कार्य का नाम:-

वाराणसी मंडल में 36 महीने (03 वर्ष)के लिए

आईपीएस और मिनी आईपीएस मेक अमर

राजा का विस्तृत वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध

का कार्य। अनुमानित लागतः ₹2,76,06,925.08,

बयाना की राशिः ₹ 2,88,000/- निविदा प्रपत्र

की कीमतः 00.00/-, कार्य पूर्ण करने की

अवधिः 36 माह, निविदा बंद होने की अंतिम

तिथि एवं समयः 15-11-2024 को 15:00 बजे।

(1) ई—निविदा दिनांक 15-11-2024 को

15:00बजे तक आन लाईन जमा किया

जा सकेगा। (2) पूर्ण विवरण की जानकारी

प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तुति करने के

लिए भारतीय रेलवे की वेवसाईट i.e.

मण्डल रेल प्रबन्धक / सिग एवं दरसंचार

नियम एवं शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं।

यह शुद्धिपत्र वेबसाइट पर मुद्रित किया गया है www.ireps.gov.in

हेतु आनलाईन (**ई-टेन्डरिंग**) के माध्यम से **खुली निविदा** आमंत्रित करते है।

स्वीकृत पत्र जारी होने के समय से कार्य समापन/अवधि की तिथिः 24 माह

ई-निविदा सूचना संख्याः झॉसी-इन्जी0-एन-2024-193

निविदा बन्द होने की तिथि : 19/11/2024 at 15:00 hrs.

11.11.2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-1. उप महाप्रबंधक (पर्यावरण): 01 पद (अनारक्षित मुक्त)

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण,

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़-492002

Rewari & Satish Public Sr. Sec. School Rewari.

1. Publication of Schedule of Election

Publication of list of Collegium members

3. Objection if any in voting list to RO at

4. Objection will be rectified by RO (if any)

on the notice board of K.L.P. College,

The Election Schedule is as follows:

Particulars

KLP College Library.

Nomination Forms available

6. Filing of nomination form only

Collegium members in person

8. Publication of List of nomination forms

10. Final Publication of the list of candidates 17.12.2024

2. All the Election process will be held at KLP College premises

5. One member is eligible to file for one post in any one institution only

Your kind co-operation is considered most essential to make the election process fair

l. Code of conduct:- Applies as per the by-laws of PEB Rewari. And guideline issued by calendar of IGU Meerpur Rewari for more details regarding election process visit website of PEB Rewari and display board in KLP College Library.

3. All voting members are to bring Govt. Issued Identity card with photo for voting

4. In case of any dispute arises during the election process, decision of RO/ARO wil

Scrutiny of nomination forms

received on the notice board

Withdrawal of nomination forms in

Library.

person

contesting election

Counting of votes and result.

free and smooth in a dignified manner.

11. Allotment of symbols

12. Date of polling

Terms and conditions:

purpose

Date:-23.10.2024

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,

दूरभाष : 0771-2512500

S-41949/1

सीनियर डीईएन/नार्थ/झाँसी डिवीज़न।

अनुमानित लागत रू: 9273536.06

ww.ireps.gov.in देखें।



आरोपी महिला

था। पुलिस ने पकड़ी गई आरोपी महिला से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर

रही है। डीसीपी अमित कौशिक ने बताया कि गत 18 जून को राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में एक युवक पर ताबडतोड फायरिंग कर हत्या की गई थी। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस

पूर्वोत्तर रेलवे

ई–टेन्डरिंग निविदा सूचना सं. 64/2024 भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मंडल रेल प्रबंधक (इंजी०) पूर्वोत्तर रेलवे

आनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम र

"खुली" निविदा आमंत्रित करते है । क्र.सं.

कार्य का विवरण : समंइं/लाइन,

इज्जतनगर के अधिकार क्षेत्र में विविध

सिविल निर्माण का कार्य (स्वीकत कार्य व

अर्न्तगत भोजीपुरा-लालकुओं अनुभाग वे

मध्य बी.सी.एम मशीन से छनाई एवं बैलास्त

की आपूर्ति पूर्ण करना (64.3) किमी.)

3,24,42,886.03 बयाना राशि रूपयों में

रु. ३,12,200 / – निविदा प्रपत्र का मूल्य

शुन्य स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि सं

कार्य पूर्ण करने की अवधि : 06 माह 1. ई-

निविदा दिनांक 20.11.2024 को 15.00 बजे

तक आन लाइन जमा कर सकेंगे। 2

ई-निविदा की प्रस्तुति हेतु पूर्ण विवरण

भारतीय रेलवे के IREPS वेब साईट

ट्रेनों में बीड़ी / सिगरेट न पियें

अमानत राशि : 185500.00

मंडल रेल प्रबन्धक (इंजी.),

www.ireps.gov.in पर् देखे ।

मृजाधि / डब्ल्यू-284

उत्तर रेलवे

संदर्भ: 1. टेंडर संख्या: 02241692 नियत तिथि: 09.12.2024

उपरोक्त संदर्भित टेंडर के मात्रा में बदलाव 1976 न. से 2576 न. किया गया है। शेष सभी

उत्तर मध्य रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्य/झाँसी निम्नलिखित कार्य

कार्य का नामः मेंटेनेंस ऑफ़ थर्ड लाइन ट्रैक बिटवीन ग्वालियर-मुरेना सेक्शन फॉर 24 माह अंडर

● निविदा दिनांक 19/11/2024 **को** 15:00 **बजे** तक ऑन लाईन जमा कर संकेंगे। ● पूर्ण विवरण एवं निविदा

को प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल के वेब साइट <u>www.ireps.gov.in</u> पर देखें। 1858/24 (AS)

क्र./8832/1-1(67)/स्था./ सीधी भर्ती / संविदा/एनआरएएनव्हीपी/२०२४, दिनांक २४.१०.२०२४ नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर के अधीन उप

महाप्रबंधक (पर्यावरण) के निम्नानुसार पद पर संविदा नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों से दिनांक 24.10.2024 से दिनांक

अधिकतम आयु/आयु सीमा में छूट / संविदा वेतन / शैक्षणिक अर्हता / अनुभव , अन्य शर्तों एवं आवेदन पत्र प्रारूप की जानकारी तथा आगामी सूचना वेबसाइट

PUBLIC EDUCATION BOARD (REGD.) REWARI

Election of Governing Body of four institutions

NOTICE

Rajeev Aggarwal Advocate, Returning Officer appointed by the Governing Body of Public Education Board (Regd.) Rewari. I do hereby declare on 23rd

October, 2024, the schedule of election of education institution namely KLP

College Rewari, RDS Public Girls College Rewari, SP College of Education

www.navaraipuratalnagar.com पर देखी जा सकती है।

<u>नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में उप</u> महाप्रबंधक (पर्यावरण) के पद पर संविदा नियुवित हेतु

2. टेंडर नोटिस संख्या: 40/2025-26

अनुमानित लागत रूपयों में

जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली। इसके बाद गत 28 जुलाई को स्पेशल सेल ने आरोपी बिजेंद्र उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान आशीष उर्फ लालू, विकास उर्फ विक्की और अन्नू धनखड़ के रूप में हई।

हत्याकांड में अनु धनखड़ की

भूमिका अहम रूप में सामने आई। जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से अमन को अपने साथ दोस्ती करने के लिए बर्गर किंग रेस्तरां में मिलने बुलाया। इसके साथ ही इसकी जानकारी हिमांशु उर्फ भाऊ और साहिल रिटोलिया को दी। इसके बाद टीम ने उसकी हत्या कर दी। गत 12 जुलाई को आरोपी आशिह उर्फ लालु और विकास उर्फ विक्की की मुठभेड़ में मौत हो गई थी। इसी बीच

जांच में जुट गई। इसी बीच हत्या की 🏻 टीम को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अंतरराष्ट्रीय भारत-नेपाल सीमा के पास अन धनखंड की गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली। टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी

महिला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसकी हिमांशु उर्फ भाऊ और साहिल रिटोलिया से दोस्ती है, उन्होंने उसे अपने खर्च पर यूएसए में इमिग्रेशन के लिए वीजा और अन्य दस्तावेजों की व्यवस्था करने और उसे युएसए में एक शानदार जीवन जीने का वादा किया था। शुरू में वह अन्य गिरोह के सदस्यों के साथ मातू राम हलवाई जबरन वसूली मामले में शामिल थी और उसका नाम सोनीपत में मातू राम हलवाई की दुकान में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना में सामने

विजिलेंस टीम ने एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा



पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): आउटर-नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के समयपुर बादली थाने में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापेमारी कर एक एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एएसआई का नाम कृष्ण चंद्र है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी ने चोरी के एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के लिए 35,000 रुपए की डिमांड की थी। बाद में डील 25,000 रुपए में तय हुई। इसके बाद पीड़ित ने इसकी जानकारी बाराखंबा स्थित विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में दे दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के हेल्पलाइन नंबर 1064 पर फोन करके इस

पूरे मामले की शिकायत की गई। इसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीम का गठन किया गया। टीम ने पहले जाल बिछाया और जैसे ही डील करने वाले व्यक्ति ने रिश्वत की रकम एएसआई को दी।

हाथ साफ कर दिया। चोर घर से सोने-चांदी के जेवर सितंबर को अपनी पत्नी के साथ अपने बडे बेटे के के अलावा कैश चोरी करके ले गए। पीडित परिवार पास गए थे। 19 अक्टूबर को वापस घर लौटे तो अपने बेटे से मिलने के लिए कर्नाटक गया था। वह फ्लैट पर लगा ताला खोलने के लिए चाबी लगाई। घर लौटे तो उन्हें वारदात के बारे में पता चला। मगर ताला अपने आप खुल गया। अंदर घुसे तो पुलिस ने पीडित की शिकायत पर केस दर्ज कर सामान बिखरा पडा मिला। उनमें रखे दस तोले से लिया है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी ज्यादा सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात और 68 कैमरों की फुटेज खंगाल कर मामले की छानबीन हजार रुपये कैश गायब थे।

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE

(APPROX.)

2,23 CRORES

कर्नाटक गए दंपति के घर लाखों की चोरी

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

CLOSING

DATE

23.10.2024

GMR Airports Limited

NAME OF WORK NOTICE TENDER

NEWLY APPROVED AREA IN SAHIB KUNI AND GANGA VIHAR

DISTRICT GURUGRAM UNDER MCG + 1 WORKS

			Quarter ende	d	Six month p	Year ended	
Sl.	Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023			31.03.2024
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	2,598.09	2,522.29	2,162.38	5,120.38	4,288.53	9,206.96
2	Net loss for the period from continuing operations (before Tax and Exceptional items)	(494.75)	(299.73)	(104.13)	(794.48)	(67.81)	(751.34)
3	Net loss for the period before Tax from continuing operations (after Exceptional items)	(386.02)	(299.73)	(135.49)	(685.75)	(23.05)	(636.26)
4	Net loss for the period after Tax from continuing operations (after Exceptional items)	(428.77)	(337.57)	(190.35)	(766.34)	(174.90)	(828.89)
5	Net profit for the period after Tax from discontinued operations	-	-	-	-	1.39	1.39
6	Net loss for the period after Tax from continuing and discontinued operations (4+5)	(428.77)	(337.57)	(190.35)	(766.34)	(173.51)	(827.50)
7	Total comprehensive income for the period	(256.49)	(358.23)	(274.37)	(614.72)	(396.87)	(996.63)
8	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 1 each)	1,055.90	603.59	603.59	1,055.90	603.59	603.59
9	Reserves (Other equity)						(1,473.25)
10	Securities premium account	55.62	-	-	55.62	-	-
11	Outstanding debt	35,281.76	34,861.52	31,256.30	35,281.76	31,256.30	35,284.67
12	Earnings per share (of ₹ 1/– each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted (in ₹)	(0.29)	(0.23)	(0.15)	(0.54)	(0.20)	(0.93)
13	Ratios						
	Networth (₹ in crore)	(725.46)	(1,221.44)	554.08	(725.46)	554.08	(869.66)
	Debt Equity Ratio (no. of times)	(49.46)	(29.04)	56.81	(49.46)	56.81	(41.29)
	Debt Service Coverage Ratio (no. of times)	0.27	0.62	0.59	0.38	0.41	0.32
	Interest Service Coverage Ratio (no. of times)	0.94	1.14	1.32	1.03	1.36	1.22
	Debenture redemption reserve (₹ in crore)	253.00	253.00	199.00	253.00	199.00	253.00
	Outstanding redeemable preference shares (₹ in crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Capital redemption reserve (₹ in crore)	NA	NA	NA	NA	NA	NA

SL.	Particulars		Quarter ende	d	Six month p	Year ended	
oı. No.		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
140.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	283.35	202.59	179.44	485.94	330.51	837.04
2	Net loss for the period (before Tax and Exceptional items)	(170.39)	(143.19)	(89.94)	(313.58)	(192.87)	(532.51)
3	Net loss for the period before Tax (after Exceptional items)	(63.56)	(143.19)	(89.94)	(206.75)	(192.87)	(537.31)
4	Net loss for the period after Tax (after Exceptional items)	(63.48)	(145.66)	(90.62)	(209.14)	(195.34)	(541.87)
5	Total comprehensive income for the period	(6,500.28)	(145.75)	(90.62)	(6,646.03)	(195.44)	19,301.05
6	Paid-up equity share capital (face value of ₹1 each)	1,055.90	603.59	603.59	1,055.90	603.59	603.59
7	Reserves (Other equity)*						53,034.78
8	Securities premium account	1,306.98	1,251.36	1,251.36	1,306.98	1,251.36	1,251.36
9	Outstanding debt	7,600.15	7,689.83	6,046.49	7,600.15	6,046.49	7,687.88
10	Earnings per share (of ₹ 1/- each)						
	Basic & Diluted (in ₹)	(0.06)	(0.15)	(0.10)	(0.21)	(0.21)	(0.57)

ve is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the stock exchanges on the quarterly financial results in the detailed format are available on Company's website viz. w.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclos BSE & NSE and can be accessed on the Company's website viz. www.gmrinfra.com. For and on behalf of the Board of Directors

Grandhi Kiran Kumar (DIN-00061669) Managing Director & CEO

निवेश के नाम पर 23 लाख टगे, तीन अरेस्ट

- आरोपियों ने धोखाधड़ी के पैसे से रेडीमेड गारमेंटस की दुकान खोली
- निवेश के बाद अच्छे रिटर्न का वादा कर 23.90 लाख टग लिए...

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): बाहरी उत्तरी जिले के साइबर क्राइम पुलिस ने गुजरात के वडनगर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक निवेश धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। आरोपियों ने दिल्ली के एक व्यक्ति को निवेश पर अच्छे रिटर्न का वादा कर उससे 23.90 लाख रुपए ठग लिए थे। आरोपियों ने वारदात के लिए मजदूरों के फर्जी सिम कार्ड और फर्जी खातों का इस्तेमाल किया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

डीसीपी निधिन वल्सन ने बताया कि आरोपियों को साइबर थाने के शो रमन कुमार की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान कारण, अंकित और सुरेश के तौर पर हुई है। आरोपियों ने धोखाधड़ी की रकम से रेडीमेड गारमेंट्स की नई दुकान खोली। बीएनएसएस की धारा 106 के तहत सभी रेडीमेड गारमेंटस और



दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस की गिरफ्त में ठगी करने वाले आरोपी।

की गई रकम में से 3.70 लाख रुपये पीड़ित को वापस किए जा चुके हैं। डीसीपी ने घटना की जानकारी देते हए बताया कि साइबर थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

शिकायतकर्ता अंकित ने आरोप लगाया कि उसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में निवेश करने पर भारी मुनाफे का वादा कर 23.90 लाख रुपये ठग लिए। केस दर्ज कर एसीपी यश पाल की देखरेख में साइबर थाना एसएचओ रमन कुमार के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर तस्वीर, हेड कांस्टेबल अजय, रमन, पवन और मंदीप की एक टीम बनाई गई। टीम ने गुजरात के विभिन्न स्थानों पर लगातार एक्सेसरीज जब्त किए हैं। धोखाधड़ी छापेमारी की और दो साइबर अपराधियों करण और अंकित को दबोच लिया। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल दो मोबाइल फोन बरामद हुए। पता चला कि रेडीमेड गारमेंटस और एक्सेसरीज को सरगना प्रकाश ने ठगी के पैसे से खरीदा था और दुकान का उद्घाटन समारोह 24 अक्टूबर, 2024 को उसकी मृतक पत्नी सुश्री सूरज के नाम पर होना था। दुकान का सारा सामान बीएनएसएस की धारा 106 के तहत जब्त कर लिया गया है। गुजरात के खेरालू के चाडा गांव निवासी प्रधान जी ठाकोर के बेटे सुरेश ठाकोर (उम्र 26) को पहले इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह 11 सितंबर. 2024 से न्यायिक हिरासत में है।

GMR GROUP - GAL/47/PREM ASSOC

युवक पर चाकू से हमला कर हत्या करने वाले पांच दबोचे

आरोपी की प्रेमिका से संबंध बनाना चाहता था युवक



दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में पांच आरोपी।

नर्ड दिल्ली. (पंजाब केसरी): दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दीपक नामक युवक की हत्या की गुत्थी को सलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग आरोपी के माता-पिता समेत चार आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों की पहचान सागर, आसिफ अली, विनोद और एक महिला के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला दोस्त की ओर से भेजे गए संदेशों को लेकर ये वारदात हुई थी। पीड़ित दीपक उसकी महिला दोस्त से शादी करना चाहता था। इस मामले में मुख्य आरोपी नाबालिंग पहले ही पकड़ा गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

हस्ता./

महाप्रबंधक (प्रशासन)

Time

1:00 pm to 02:00 p

2:00 pm to 04:00 p

1:00 pm to 03:00 pr

1:00 pm to 03:00 pm

08.12.2024 to 1:00 pm to 03:00 pm

13.12.2024 to 1:00 pm to 03:00 pm

12.01.2025 9:00 am to 02:00 pm

12.01.2025 after completion of polling

03:00 pm

03:30 pm

26.10.2024

28.10.2024

04.11.2024

04.11.2024

01.12.2024 to

02.12.2024 to

07.12.2024

12.12.2024

12.12.2024

17.12.2024

19.12.2024 1:00 pm

डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि गत नौ अक्टूबर को विजय विहार इलाके में एक युवक दीपक की चाकू

मामला दर्ज कर जांच में जट गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात के पीछे नाबालिंग के पिता, मां और विनोद और सागर के नाम सामने आए

आरोपी की महिला दोस्त से विवाद को लेकर एक वीडियो नौ अक्तूबर को वायरल हुआ था। पुलिस को पता चला कि सागर का नाबालिग करीबी दोस्त है। नाबालिग का अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और शादी करना चहाता था। पीड़ित दीपक शर्मा लड़की पर उससे बात करने और संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। नाबालिग जब बाल सुधार गृह से बाहर आया तो उसने सागर को बताया कि दीपक ने उसकी प्रेमिका और उसके माता-पिता को धमकाया था। इस कारण पूरा परिवार कहीं चला गया है, ऐसे में वह दीपक को सबक सिखाना चहाता है। उसने दीपक की

मार कर हत्या कर दी गई। पुलिस

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): सोशल मीडिया पर आए दिन दिल्ली मेट्रो का वीडियो वायरल होता रहता है कभी लड़ाई-झगड़े का



जब एक शख्स मेट्रो में चोरी करते हुए पकड़ा गया। पैसेंजर ने तुरंत उसे पकड लिया और उसकी जमकर पिटाई की। वीडियो में देखा जा

सकता है कि कैसे पैसेंजर ने उस शख्स को थप्पड़ पर थप्पड़ मारे और उसे प्लेटफॉर्म पर उतारकर पुलिस के हवाले करने की कोशिश की। इस दौरान कुछ पैसेंजर ने उसे मारने से मना भी किया और कहा कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए।

17 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024

24×7 ऑनलाईन प्रवेश

ब्लॉक-॥

दिल्ली मेट्रो में चोर को पकड़ कर यात्रियों ने की जमकर पिटाई

तो कभी नाच-गाने का,

लेकिन इस बार एक चोर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। हाल ही में एक चोर को पैसेंजर ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) (विश्व की सबसे बड़ी मुक्त विद्यालयी शिक्षा प्रणाली)

Date: October 24, 2024

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था) ए-24-25, सेक्टर-62, नोएडा-201309, उ.प्र. | वेबसाइट : www.nios.ac.in | टोल फ्री 18001809393

अमृत महोत्सव

बेहतर भविष्य के लिए एनआईओएस व्यावसायिक पाठ्यक्रम

प्रवेश प्रार्भ ब्लॉक-॥ के लिए 17 अगस्त 2024 से

शीघ्र करें!!! सीमित सीटें पहले आओ-पहले पाओ



एनआईओएस, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), एमएसडीई, भारत सरकार की मूल्यांकन और प्रमाणन (दोहरी श्रेणी) के लिए अधिकृत संस्थान है।

एनआईओएस व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के लिए विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित करता है

🌣 गृह विज्ञान एवं आतिथ्य

आतिथ्य पाठ्यक्रम आदि

� स्वास्थ्य तथा पराचिकित्सा

🍫 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

🌣 शिक्षक प्रशिक्षण

🌣 अन्य पाठ्यक्रम

आनंददायक अधिगम

तथा औद्योगिक सुरक्षा

कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस मेकिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, ब्यूटी थेरेपी

बेकरी और कन्फेक्शनरी, भारतीय कढ़ाई, आईटीडीसी के साथ

सामुदायिक स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक थैरेपी, होम्योपैथिक

डिस्पेंसिंग, पंचकर्म सहायक, रेडियोग्राफी, आईएमए के

योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, योग विज्ञान में डिप्लोमा,

प्रारम्भिक बाल देखरेख एवं शिक्षा, खिलौना निर्माण तथा

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, सुरक्षा सेवाएँ, अग्नि से बचाव

सहयोग से डीएमएलटी एवं डीएमआईटी आदि

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान में डिप्लोमा

🍫 कृषि एवं पशुपालन

मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्टिंग आदि

� व्यापार एवं वाणिज्य

आधुनिक सचिवीय अभ्यास में डिप्लोमा, बीमा सेवाओं में डिप्लोमा, टंकण, आशुलिपि, ई-टाइपराइटिंग आदि

🍫 कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी

कंप्यूटर और ऑफिस एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सीसीए, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, सीआरएम डोमेस्टिक वॉयस, कम्प्यूटर हार्डवेयर असेंबली और रखरखाव

🌣 इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी

पेयजल शुद्धि तकनीशियन, विद्युत तकनीशियन, रेफ्रीजरेशन और एयर कंडीशनिंग, वेल्डिंग प्रौद्योगिकी, चौपहिया वाहन

प्रमुख विशेषताएं

तकनीशियन, प्लंबिंग, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन आदि

प्रवेश 5 साल के लिए वैध > 5 वर्षों में परीक्षा में बैठने के नौ मौके

श्रव्य और दूश्य कार्यक्रम ➤ व्यावहारिक प्रशिक्षण ➤ शैक्षिक और व्यावसायिक विषयों का संयोजन ➤ उचित शुल्क

➤ स्व-अध्ययन सामग्री ➤ कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं

www.facebook.com/NIOSHQ https://instagram.com/nioshq

www.swayam.gov.in/NIOS https://twitter.com/niostwit

□ Isc@nios.ac.in ⊕ https://voc.nios.ac.in



पेयजल शुद्धि तकनीशियन, एनएसक्यूएफ स्तर 3.5 पाठ्यक्रम के लिए अब हम SIDH पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं

CMYK —



